

प्रेस विजिप्त दिनांक - 09.03.2023

महाबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में होली पर्व के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस महत्वपूर्ण स्थलो मे रही भ्रमणशील,

यातायात/सुरक्षा व्यवस्था का हेतू भीड़-भाड/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र मे पैदल गश्त कर सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश।

आज दिनांक 09.03.2023 को जनपद महोबा में परम्परानुरुप होली का पर्व मनाया <mark>जा रहा है, होली पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती</mark> अपर्णा गुप्ता द्वारा क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों में भ्रमणशील रहते हूँये यातायात/सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया गया, भीड़-भाड/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र मे पैदल गश्त कर सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं साथ ही पर्व के दौरान सुदृढ़ यातायात व्यवस्था <mark>बनाये रखने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।</mark>

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित <mark>पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में लगातर भ्रमण</mark>शील रहे, पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फुट पेट्रोलिंग कर खुफिया तंत्र को और अधिक सक्रिय करते हुए प्रत्येक छोटी सी छोटी घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुये अराजक तत्वों को चिह्नित कर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाकर आकरिमक चेकिंग करके अवै<mark>ध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के</mark> निर्देश दिये हैं।

पुलिस अधीक्षक ने होली पर्व के दौरान सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की सतर्कता से लगातार निगरानी करने के निर्देश दिये हैं, साथ ही सभी संवेदनशील स्थानों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, जुलूस के मार्गों एवं हॉट स्पाट्स पर पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुये होली पर्व के दौरान क्षेत्र में विशेष सत<mark>र्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।</mark>

















प्रेस विजिप्त **दिनांक - 09.03.2023**

महाबा पुलस

मीडिया सेल, महोबा



थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध शराब के

साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0 के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में होली त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेत् चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन के क्रम में थानाध्यक्ष खरेला श्री यज्ञनारायण भार्गव द्वारा गठित टीम के उ0नि0 दिनेश कुमार द्वारा 01 नफर अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र रघुराज सिंह उम्र करीब 26 वर्ष को तिसौनी तिगैला के पास से 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची महुआ शराब नाजाय<mark>ज के सा</mark>थ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/2023 <mark>धारा ६० आबकारी अधिनियम का अभियोग</mark> पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उ0नि0 दि<mark>नेश कुमार</mark> यादव
- 2. कां0 शैलेन्द्र सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

दिनेश कुमार पुत्र रघुराज सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम कुड़ार थाना खरेला जिला महोबा

बरामदगी- 10 लीटर कच्ची महुआ शराब नाजायज





